

नीतिआयोग ने लॉन्च की हमिलयन क्षेत्र में सतत विकास हेतु पाँच थीमेटिक रिपोर्टें

चर्चा में क्यों?

हमिलय की वशिष्टता और नरितर विकास की चुनौतियों को समझते हुए नीतिआयोग ने जून, 2017 में पाँच कार्य दलों का गठन किया, ताकि विषय संबंधी पाँच थीमेटिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जा सके।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इन पाँच थीमेटिक विषयों में - जल सुरक्षा के लिये नवाचार और हमिलय क्षेत्र में झरनों को फरि से चालू करना, भारतीय हमिलय क्षेत्र में सतत पर्यटन, कृषि की ओर बढ़ने के लिये परिवर्तनीय दृष्टिकोण, हमिलय क्षेत्र में कौशल और उद्यमिता परदृश्य को मज़बूत बनाना तथा सुवर्जित फ़ैसले लेने के लिये डेटा/जानकारी उपलब्ध कराना शामिल हैं।
- हालाँकि, विषय संबंधी इन क्षेत्रों का हमिलय के लिये काफी महत्त्व है।
- इस परवत की वशिष्टता को बनाए रखने के लिये अनुकूल भवन निर्माण जैसे विशेष पर्यासों की आवश्यकता है जिससे वहाँ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।
- पाँच कार्य दलों की रिपोर्टों में इसके महत्त्व, चुनौतियों, वर्तमान कार्यों और भविष्य के रोडमैप के बारे में चर्चा की गई।
- रिपोर्ट में विषय संबंधी सभी पाँच क्षेत्रों की चुनौतियाँ बताई गई हैं।
- गौरतलब है कि जल सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण करीब 30 परतशित झरने सूख रहे हैं और 50 परतशित में बहाव कम हुआ है।
- हमिलय क्षेत्र में हर वर्ष पर्यटन 6.8 परतशित की दर से बढ़ रहा है और उसके कारण ठोस कचरा, पानी, यातायात, जैव-संस्कृति विविधता के नुकसान के कारण बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं।
- भारत के हमिलयी क्षेत्र के राज्यों में 2025 तक पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है, कचरा प्रबंधन और जल संकट जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से संबंधित अन्य विषयों के समाधान के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में हज़ारों परिवार अभी भी स्थानांतरित/झूम कृषि की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं, अतः पर्यावरण, खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को देखते हुए इसका समाधान किया जाना ज़रूरी है।
- पहाड़ों में अकुशल कार्य बल भी एक चुनौती बनी हुई है, युवकों के पलायन की समस्या को दूर करने के लिये उच्च प्राथमिकता देनी की आवश्यकता है।
- साथ ही आँकड़ों की उपलब्धता, प्रामाणिकता, संगतता, गुणवत्ता, वैधता तथा हमिलयी राज्यों के लिये यूजरस चार्जेज से जुड़ी चुनौतियों से निपटना भी ज़रूरी है ताकि शासन के विभिन्न स्तरों पर सुवर्जित नर्णय लिये जा सकें।
- रिपोर्टों में प्रमुख संदेशों को शामिल किया गया है जिसमें झरनों की मैपिंग और उन्हें दोबारा शुरू करना, हमिलयी राज्यों में विभिन्न चरणों में 8 चरणीय प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना आदि प्रमुख हैं।
- इसके साथ ही सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में सामान ले जाने की सीमा निर्धारित करना; पर्यटन क्षेत्र के मानकों को लागू करना और उनकी नगिरानी तथा उन राज्यों के लिये कार्य निषिपादन आधारित प्रोत्साहन जैसे मानकों का पालन करना भी प्रमुख है।
- हमिलयी क्षेत्रों में प्रकृतिक आकलन और कृषि क्षेत्र में बदलाव की सीमा, बेहतर नीतितगत सामंजस्य, एक निर्धारित समय तक सुरक्षा और संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं तक बेहतर पहुँच आदि प्रमुख सफ़िराशें की गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि कौशल और उद्यमिता को मज़बूती प्रदान करने के लिये चर्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, लाभ वाले क्षेत्रों, प्रशिक्षकों के लिये नविश, उद्योग साझेदारी में प्रशिक्षण केंद्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है।